Minda Industries Ltd.



Ref. No. Z-IV/R-39/D-2/174 & 207

Date: 22 February, 2022

National Stock Exchange of India Ltd.
Listing Deptt., Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051.
Scrip Code: MINDAIND

Sub: Submission of newspapers clippings - publication of Voting Results

Ref: Composite Scheme of Amalgamation of Minda I Connect Private Limited (Transferor Company) with Minda Industries Limited (Transferee Company) and their respective shareholders and Creditors ("hereinafter referred to as Scheme").

Dear Sirs,

This is in continuation of our earlier letter dated 17/02/2022, wherein we submitted the voting results of the NCLT convened meetings, declared on 17 February, 2022 alongwith the Scrutinizer's Report(s) for these meeting(s). The voting results were also published in the newspapers on 18 February, 2022 in Financial Express and Jansatta (Hindi) newspapers. The clippings of the newspapers are enclosed herewith.

dustrie.

Delhi

This is for your information and records please.

Yours faithfully,

For MINDA INDUSTRIES LTD.

Tarun Kumar Srivastava

Company Secretary & Compliance Officer

Rivastava

Encl: As above.



FINANCIAL EXPRESS



POSSESSION NOTICE [Rule-8(1)]

Whereas the undersigned being the authorized officer of L&T Finance Limited (Erstwhile, L&T Housing Finance Ltd has been Merged with L&T Finance Ltd under the Scheme of Amalgamation by way of merger by absorption approved by the NCLT Mumbai as well as NCLT Kolkata, L&T Housing Finance Limited has merged with L&T Finance Limited ('LTF') w.e.f. 12th April, 2021) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred by Section 13(12) of the said Act read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notices calling upon the Borrower/ Co-borrowers and Guarantors to repay the amount mentioned in the demand notice appended below within 60 days from the date of receipt of the said notice together with further interest and other charges from the date of demand notice till payment/realization. The Borrower/ Co-Borrowers/ Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/ Co-Borrowers/ Guarantors and public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein under in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 of the said Act read with rule 8 of the said Rules on this notice.

Loan Account	Borrower/s/ Co-borrower/s &	Description of the Mortgaged Properties		Demand Notice	Date and Type of
Number	Guarantors Name	Description of the Mortgaged Properties	Date	Outstanding Amount (₹)	Possession Taken
DELHL15000360	1. Damnish Kumar 2. Vandana Singh	All The Piece And Parcel Of The Property Address - Apartment No. VS-8/bunglow No-G On Ground Floor, Tower VS-8 Having Super Built Up Area Of 2300.00 Sq.ft. (Approx 213.68 Sq. Mtrs) Corresponding Built Up Area 2060 Sq.ft.(including Balcony Area) In Housing Project Known As "rise Skybunglows" Located On GH-02(On MCF Land In Revenue Estate Of Village Sarai Khawaja), Sec 41, Faridabad, Haryana Faridabad India 121 003.		Rs. 1,40,87,558.12 /- (Rupees One Crore Forty Lakhs Eighty Seven Thousand Five Hundred Fifty Eight and Paise Twelve Only) as on 19-11-2021	11.02.2022 Symbolic Possession

The Borrower/ Co-borrowers/ Guarantors in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing in the property would be subject to the charge of L&T Finance Limited for an amount mentioned in the demand notice together with further interest and other charges from

For L&T FINANCE LIMITED

MINDA INDUSTRIES LTD.

Corporate Office: Village Nawada Fatehpur, P.O. Sikandarpur Badda, Near IMT Manesar, Gurgaon (Haryana) -122004

Tel.: +91 11 4937 3931, +91 124 2290 427/28 Fax: +91 124 2290676/95

Notice is hereby given that pursuant to section 110 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions (if any) to the shareholders and all other concerned entities/ authorities that NCLT Convened Meeting(s) of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company held on 16 February, 2022, conducted for seeking their approval on the below stated resolution: -

aforesaid meetings, the results of the Voting of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors were declared on 17 February, 2022 as follows: -

Brief particulars of Special Resolution(s)	Total	No. of Vote of total votes	No. of Votes & % age of total votes cast against		
	valid Votes	No. of Votes	% age of Votes	No. of Votes	% age of Votes
Special Resolution regarding to approve the Scheme of Amalgamation of Minda I Connect Pvt. Ltd. (Transferor Company) with Minda Industries Ltd. (Transferee Company) and their respective Shareholders and Creditors (Scheme)					
Equity Shareholders	263890056	262413983	99.4406	1476073	0.5594
2. Unsecured Creditors	814110465	813997858	99.9862	112607	0.0138

requisite majority.

Exchanges and have also been uploaded on the website of the company www.unominda.com along with the Scrutinizer's

By order of the Board of

Place: Gurugram, Harvana Date: 17 February, 2022

Company Secretary & Compliance Officer

pnb

punjab national bank .Together for the better

CIRCLE SASTRA BATHINDA Plot No 445, Phase -III, Model Town, Bathinda

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY/IES)

borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property(ies) described here below in Exercise of the powers conferred on him under section 13(4) of said ACT read with Rule 8 of the said Rules on the date mentioned against each account.

The borrower(s)/Guarantor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the said property(ies) and dealing with the property(ies) will be subject to the charge of the Punjab

National Bank, for the amount and interest thereon.

13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset(s).

Date of

Demand Notice

Vo.	Borrower(s)/Guarantor
1.	B/o: Raman Mandi

Singh, Near Bus Bathinda bounded as under: North: 80' Mahesh Kumar, South: 80' Jaswinder Singh S/o Gajjan Singh

B/o: Raman Mandi Borrower: M/s Deepak Agencies through its (Rupees Twenty Eight Lacs Twenty Five

proprietor Krishan Kumar S/o Raj Kumar, Near Balmiki Thousand Seven Hundred Eighty Nine 8 Chowk, Kamalu Road, Raman Mandi, Tehsil Talwandi Paisa Twenty Seven Only) Plus further Sabo, District Bathinda

B/o: Raman Mandi

Borrower: Krishan Kumar S/o Raj Kumar, Near Balmiki Chowk, Kamalu Road, Raman Mandi, Tehsil Talwandi Sabo, District Bathinda-151301

20.07.2021 | 16.02.2022 | Rs. 28.25.789.27 nterest with effect from 01.07.2021 costs

Date of

Possession

Amount

Outstanding

charges and other expenses thereon. (Less Recovery affected thereafter, if any) 16.09.2021 | 16.02.2022 | Rs. 9.39.873.29

Rupees Nine Lacs Thirty Nine Thousand Eight Hundred Seventy Three & Paisa Twenty Nine Only) Plus further interest with effect from 31.08.2021 costs, charges and other expenses thereon. (Less Recovery affected

Khasra No. 536min(0-7.75), Khatoni No. 739 No. 739/1391/1 Old ward No. 2, Street No. 19, Raman Mand in the name of Krishan Kumar S/o Raj Kumar vide title deed No. 3394 dated 12.02.2018 Bounded as under North: 30' Tarsem Kumar, South: 30' Street, East: 75' Ashok Kumar, West: 75' Marfi S/o Bishan Chand.

Aggarwal Colony, Maur Di Chakki Jodhpur Road, Maur mandi vide sale deed No. 1785 dated 08.12.2016

Vijay Kumar R/o Tilla 294/2 min (1-8), 4, 50) Vide Jamabndi 31.03.2021 costs, charges and other for the year 2013-14 situated at Near expenses thereon. (Less Recovery affected

Road, Near Aggarwal Aggarwal Colony Rakna Maur Kalan, thereafter, if any)

Asha rani W/o Vijay Kumar, Bounded as : North : 22'6" Street, South : 22'6" H/o Sanjeev Kumar S/o Satpal, East: 50' Sadhu Ram, West: 50' Meena Rani

6. Blo: Talwandi Sabo All that part and parcel of residential 21.07.2021 | 16.02.2022 | Rs. 13.29.730.71 Borrower: Sh. Gurjit House measuring 00K 7.94 M (Rupees Thirteen Lacs Twenty Nine Singh S/o Mithu Singh comprised in Khewat No. 153 Khatoni Thousand Seven Hundred Thirty & paisa

Village Gurusar Jagga, 151302.

151509.

vide Jamabandi for the year 2009-10 other expenses thereon. (Less Recovery Tehsil Talwandi Sabo, in the name of Sh. Gurjeet Singh S/o affected thereafter, if any) District Bathinda- Sh. Mithu Singh vide sale deed No. 194 dated 21.04.2014, sale deed No. 310 dated 12.05.2015, sale deed No. 311 dated 12.03.2015 and sale deed No. 760

date 24.06.2015. Bounded as: North: 24'-14 1/2" Jagroop Singh, South: 24'-4 1/2" Road, East: 67'-7 1/2" Ruldu Singh, West: 67'-7 1/2" Mithu Singh.

Place: Bathinda

7. Bio: Talwandi Sabo All that part and parcel of Residential 07.06.2021 16.02.2022 Rs. 4.74.115/-Borrower: Mrs. property Plot measuring 00K 05M (Rupees Four Lacs Seventy Four Thousand Kiranjit Kaur W/o vide Killa No. 167/19 min(0-13) 20 One Hundred Fifteen Only) Plus further Bhupinder Singh, #15 min(4-0), 21/1min (3-14), 22/1min(0-Near Dharamshala, 3), 08K share of 1/32=05M, Khewat Bangher Mohabat No. 438/819 rakba village Jai Singh charges and other expenses thereon. (Less Singh, Tehsil Maur, Wala vide Jamabandi for the year Recovery affected thereafter, if any) District Bathinda-2012-13 situated at Street 12 Ward No. 03, Natt Road, Talwandi Sabo vide sale

interest with effect from 31.05.2021 costs.

deed No. 1902 dated 08.07.2016. Bounded as: North: 52' Street, South: 52 Gurvinder Singh, East: 26' Amritpal Kaur, West: 26' Street.

Authorized Officer "IMPORTANT"

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

9 9 Whilst care is taken prior to

any manner whatsoever.

Bookin Advertisement

केनरा बैंक Canara Bank 📣 DEMAND NOTICE Regional Office 1: Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010 DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 Detail description ishilities as on Name of the Borrower/Mortgagor Rate of Loan /NPA date of the properties & Guarantor of Loan Amount Interest costs item wis M/S ABA Agriculture & Rural Development Ltd Agri TL Land situated at Village Asti Branch: Rs. 12.90% (Borrower), Plot No 27, Indira Priyadarshini, Gram 63,12,546.33 ALIGANJ & Pargana Mahona Tehsil B.K.T. 38,07,000/per annui Chandan, Near Manas Enclave, Indira Nagai and interest District Lucknow, Khasra No. .ucknow-226016 832,200,217,224, Area- 0.90325 thereon monthly Also At: M/S ABA Agriculture & Rural Date of NPA Development Ltd, Khasra No 200, Vill- Asti, Bakshi Agri TL 12.60% Boundaries of Khasra No 832: 04.01.2022 East: Road 20 Ft Wide, West: Ka Talab, Mahona & Tehsil- Bakshi Ka Talab, 8,00,000 per annum Lucknow-226201 Plot Khasra No 825, North: Sri Devendra Singh (Director, Mortgagor Khasra no: 831, South: Khasra monthly Guarantor in M/S ABA Agriculture & Rural No 833, 834 and chak marg Development Ltd & Borrower & Mortgagor in Agri OCC Boundaries of Khasra No 200: 0,00,000 per annun Devendra Singh) S/O Hari Narayan Singh, B-142, East: Link Marg Vill Asti, West: Shivpuri, Kalyanpur, Lucknow-226022 Plot Khasra No 217, North: monthly Sri Anurag Pandey (Director) S/O Sri Bishambhai Khasra no: 199, South: Khasra Nath Pandey, R/O 448/12a Nagariya 2 Lucknow 10.35% Sri Manish Pratap Singh Chauhan (Director) S/O Apricultur Boundaries of Khasra No 217: 2,65,000/ per annum East: Chak Road Thereafter Sri Jagdamba Singh Chauhan, R/O 448/12a, Nagariya 2 Lucknow Khasra No 198 & 200, West: Plot monthly Khasra No 232 & 233, North: Sri Shrawan Kumar (Director) S/O Sri Lallu Ram Khasra no : 219,224 & 225, R/O 168, Neejhada Kashipur Udham Singh Nagar 10.35% Sri Ved Vyas Bajpai (Director) S/O Sri Ram Nath South: Khasra No : 212,213 & 4,45,000 per annun Bajpai, R/O E-1011, Rajajipuram Lucknow Smt Era Pandey (Director & Guarantor in M/S ABA Boundaries of Khasra No 224: monthly Agriculture & Rural Development Ltd & Guarantor East: Khasra no 219,221 & 222, West: Khasra No 225 & 228, in Devendra Singh) W/O Sri Anurag Pandey, R/O 27 10.35% Indira Privadarshini Chandan, Indira Nagar Lucknow North: Chak Road, South: 1.79,000/ per annun Khasra No: 217 Sri Jagdamba Singh (Director) S/O Sri Jaypal Singh, 10, Asti, Bakshi Ka Talab Lucknow Name of Title holder: Sri Smt Sunita Singh Dhawan (Guarantor in Devendra Devendra Singh S/O Hari Singh & M/S ABA Agriculture & Rural Narayan Singh Development Ltd) W/O Sri Devendra Singh, B-142 Shivpuri Kalyanpur, Lucknow-226022 Borrower: M/S Shubham Enterprises Through Its Canara House No - A/134, type 'Ashraya' Proprietor - Sri Shubham Kumar Saini, Arjunganj, at Raksha Khand in Eldeco .43.170.2RAIBAREILLY 8,00,000/per annum Udyan-II, Ward - Sharda nagar, Sultanpur Road, Lucknow-226002 and interest Proprietor & Mortgagor: Sri Shubham Kumar Sain Raebareily Road, Lucknow, Area thereon monthly S/O Sri Surjan Singh Saini, 169/33, Hata Ramdas 30.21 SQM, Name of Title Date of NPA holder: Sri Shubham Kumar Sadar Cantt, Lucknow -226002 14.06.2019 Saini, Boundaries: East: House on Plot No A-110, West: 4.5 Mtr Wide Kharanja Road, North: House on Plot No A-133, South:

The above said loan/credit facilities are duly secured by way of mortgage of the assets more specifically described in the schedule above, by virtue of the relevant documents executed by you in our favor. Since you had failed to discharge your liabilities as per the terms and conditions stipulated, the Bank has classified the debt as NPA hence. We hereby issue this notice to you under section 13 (2) of the subject act calling upon you to discharged the entire liabilities of with accrued and up-to-date interest and other expenses, within Sixty Days from the date of the notice, failing which we shall exercise all or any of the rights under section 13 (4) of the Further, you are hereby restrained from dealing with any of the secured assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under

the subject act and/ or any other law in force. Your attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

The Demand notice had also been issued to you by registered post ack due to your last known address

available in the branch record. Authorised Officer, Canara Bank Date: 18.02.2022 Place: Lucknow,

Circle SASTRA Centre: Ludhiana-East, Site No.5, Near Wave Mall, Ferozepur Road, Ludhiana. E-MAIL: cs4540@pnb.co.in, TEL: 0161-2550270/ 2550275 Rule-8 (1) POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized officer of the Punjab National Bank, Circle SASTRA Centre Ludhiana-East under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices U/S 13(2) dated mentioned as below calling upon the borrower(s)/ Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the Notice(s) being within 60 days from the date of receipt of the said Notices. The borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgager(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

borrower(s) of the property and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the Said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on these dates mentioned against below The borrower(s)/ Guarantor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the

Circle SASTRA Centre, Ludhiana-East for an aggregate amount of as mentioned below + future interest thereon and costs, etc. The borrowers/Guarantors/Mortgagers attention is invited to provision of sub-section (8) of section

property and any dealings with the property(ies) will be subject to the charge of the Punjab National Bank

13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. Description of | Date of | Date of Amount

Name of the Borrower/Guarantor /Owner of Property

1. Borrower(s)/Partner(s)/ Guarantor:- Smt. Chand Sayal W/O Sh. Rakesh Syal and Sh. Shivam SYAL S/O Sh. Rakesh Syal both are R/o

HM- 26, Punjab Housing Board Colony Focal Point, Jamalpur, Ludhiana. 2. (Borrower(s):- Sh. Maninder Pal Singh S/o Sh. Harbans Singh Grewal and

3. (Borrower):- Sh. Mohan Singh Rana S/o Sh. Kulwant

Singh and Co-Borrower Smt.

Pooja Rani W/o Sh. Mohan

Singh Rana both are R/o H

No. 2192-93, Street no. 0

Indira Colony, Rahon Road

Ludhiana and Guarantor Sh.

Harjinder Singh, R/o Street

no. 2, Shakti Vihar, Bhamian

Road, Ludhiana-141007

Distt. Ludhiana

payment in full.

All that is part & 10.08.2021 15.02.2022 parcel of one Residential House bearing House No. HM-26, situated at Punjab Housing Board Colony (PUDA), Jamalpur, Dhandari Kalan, Ludhiana at Wasika No. 20403 dated 24/12/1997 in the name of Smt. Chand Syal W/O Sh. Rakesh Syal and bounded by: East: House No HM-19, North: House No HM-28, South: House No HM-24, West: Road

the Mortgage Demand Possession

Property/ies | Notice | Notice

All that is part & 18.11.2021 15.02.2022 Sh. Harbans Singh S/o Sh. Sant Singh both are R/o Village Khassi Kalan, Tehsil & and District Ludhiana

parcel of Equitable Mortgage of property measuring 564 Sq. yards comprised in Khasra no. 158, 180, 305, 98//26,90//16/1, 91-21/2,91//23 min 98//18/1,91/23 min, 91//24 as per jamabandi for the year 2008-09 situated within the revenue estate of Village Khassi Kalan HB No. 183 Tehsil

(Rupees Twenty Three Lakh Sixty Nine

Thousand Six Hundred Eighteen only) as on 10.11.2021 with interest charged upto 31.10.2021 and further interest w.e.f. 01.11.2021 at the contractual rate plus other expenses and charges accrued, thereafter until

Outstanding

Rs. 15,98,794.00/-

Rupees fifteen lakh

ninety eight thousand

seven hundred ninety

four only) with interest

charged upto 31.07.2021

and further interest w.e.f.

01.08.2021 plus other

expenses and charges

Rs.23,69,618.00

accrued, thereafter

All that is part & 02.12.2021 15.02.2022 Rs.27,12,339.26

parcel of Equitable Mortgage of property (Rupees Twenty Seven Lakh Twelve Thousand measuring 113-1/3 Sq. yards bearing MC no. B-Three Hundred Thirty XXXI-1362/1, comprised in Khasra no. 1152/348, Nine and Paise Twenty Khata no. 656/670 as per jamabandi for the year Six only) as on 2005-06 situated at Village Taraf Jodhewal 02.12.2021 with Hadbast no. 77 Abadi Indira Colony, Tehsil and interest charged upto District Ludhiana as per the Sale deed bearing 30.11.2021 and further wasika no. 993 dated 21/09/2015 owned by Smt. interest w.e.f. 01.12.2021 at the contractual rate plus other expenses and charges accrued, thereafter until payment in full.

Rs.77,80,008.58

Rupees Seventeen

Lakh Eighty Thousand

Eight and Paise Fifty

Eight only) as on

31.10.2021 with interest

charged upto 31.10.2021

and further interest w.e.f.

01.11.2021 at the

contractual rate plus

other expenses and

charges accrued

hereafter until payment

(I) All that is part & 25.11.2021 15.02.2022 4. (Borrower's):- M/S Naveen Stickers # B/16/981 (old) and B-16-1688 (new), Muradpura, Miller Gani, Street no. 6. Ludhiana-141003, Punjab, Sh. Sharda Patel S/o Sh. Jagan Nath Patel 2" R/o 1720, Phase-II. Urban Estate, Dugri Ludhiana, (Guarantor's):- 1 Sh. Ankit Patel S/o Sh. Sharda (II) All that is part & parcel of IP i.e. Plot Patel R/o 1720, Phase-II, Urban Estate, Dugri, Ludhiana and Guarantor 2nd Sh. Aman Patel

S/o Sh. Sharda Patel, R/o 1720, Phase-II, Urban Estate, Dugri, Ludhiana Pushpak Trading Co. B-23, Aman House, Adjoining H.P. Petrol Pump, Near Transport Nagar, Link Road, Ludhiana through its Proprietor Mr. Rajeev Kumar S/o Mr. Madan

Lal, R/o H. No. 9770, Street no.

Tilak Nagar, Rahon Road,

Ludhiana

parcel of IP i.e. Plot measuring 75 Sq. Yards comprised in Khasra No. 3436/2810/99-100, Khata No. 1908/2228 as per jamabandi for the year 1991-92 situated at Village Peeru Banda, HB No. 167, Abadi Known as Muradpura, Tehsil and District as per Sale Deed bearing Wasika no. 11018 dated 13.08.1998 in the name of Sh. Sharda Patel S/o Sh. Jagan Nath Patel.

Pooja Rani W/o Sh. Mohan Singh Rana.

measuring 75 Sq. Yards comprised in Khasra No. 3437/2811/99-100, Khata No. 1876/2206 as per jamabandi for the year 1986-87 situated at Village Peeru Banda, HB No. 167, Abadi Known as Muradpura, Miller Ganj, Tehsil and District Ludhiana as per Sale Deed bearing Wasika no. 33188 dated 16.03.1994 in the name of Sh. Sharda Patel S/o Sh. Jagan Nath Patel

5 (Borrower's):- M/s. All that is part & 19.10.2021 15.02.2022 Rs. 19, 14, 716 parcel of Equitable Mortgage of property measuring 104 Sq. yards comprised in Khasra no. 389, Khata no. 122/126 as per jamabandi for the year 2007-08 situated at Village Taraf Saidan, Hadbast no. 172 locality known as Tilak Nagar, Rahon Road, Tehsil and District Ludhiana as per the Sale deed bearing wasika no. 1701 dated 20/04/1993 owned by Mr. Rajeev Kumar.

1160/1572-1573-1163/1580, Hadbast No. 263 as per

iamabandi for the year 2010-11 situated at Village Mauja Gill as per Wasika No. 7442 RTD | plus other expenses and

Rupees Nineteen Lakh Fourteen Thousand Seven Hundred Sixteen only) as on 30.09.2021 with interest charged upto 30.09.2021 and further interest w.e.f. 01.10.2021 at the

Rs. 59,04,720.52/-

Rupees fifty nine lac four

housand seven hundred

twenty and paise fifty two

only) as on 31.03.2021

with interest charged upto

31.03.2021 and further

interest w.e.f. 01.04,2021

at the contractual rate

charges accrued.

Rupees Thirteen Lakh

Fifty Four Thousand

Three Hundred Fifty Five

and Paisa Eighty only)

as on 25.07.2021 with

AUTHORISED OFFICER

contractual rate plus other expenses and charges accrued, thereafter until payment in full.

10.08.2021 15.02.2022 Borrower(s)/Partner(s)/ (I) All that is part & Guarantor M/s Taneja General parcel of one property measuring 140 Sq. yards Store, Street No. 6, Chimni Road, bearing Khasra no. 7801/811-7804/811-7813/811-Shimlapuri, Ludhiana through its 7815/811-7821/811-7824/811-7946/811 Proprietor Smt. Gurdarshan Kaur 8366/824/3/4 8365/824/3/3-8364/824/3/2-W/O Sh. Jaspal Singh, R/o Street 8367/824-8329/824/1-8330/824/2-8363/824/3/1 No. 6, Chimni Road, Shimlapuri, 7818/811-7819/811,Khata no. 1157/1546-

22.11.2016 in the name of Smt. Gurdarshan Kaur W/O Sh. Jaspal Singh. (II) All that is part and parcel of House measuring 191.67 sq. yards situated in khasra | thereafter until payment no. 284, 285, 292, Khata no. 384/71 bearing sale deed no. 432 dated 09/04/2018 in Infull. the name of Smt. Gurdarshan Kaur W/O Sh. Jaspal Singh at Mauja Dhandra Janta Enclave Ludhiana.

7. (Borrower/s):- Sh. Kewal EM of Residential 26.07.2021 15.02.2022 Rs.13,54,355.80 Krishan S/o Sh. Amar Nath & Property msg. 60 Sq. Yards bearing House no. Smt. Anju Bala W/o Sh. Kewal B-XXX-7478, New Moti Nagar, Street no. 11 Ludhiana standing in the nam xe of Smt. Anju Krishan, both are R/o of H. No. Bala W/o Sh. Kewal Krishan. B-XXX-7478, Street No. 11, New Moti Nagar, Ludhianainterest charged upto 30.06.2021 and further interest w.e.f. 01.07.2021 at the contractual rate plus other expenses and charges accrued, thereafter

until payment in full. PLACE. LUDHIANA

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA APPLICATIONS FOR THE POST OF EXECUTIVE **DIRECTOR ON CONTRACT / DEPUTATION**

Securities and Exchange Board of India (SEBI), is a statutory regulatory body established by an Act of Parliament, to protect the interests of investors in securities, to promote the development of and to regulate the securities market. SEBI invites applications from Indian citizens for One (01) post of Executive Director, on contract/ deputation basis. Last date for receipt of application is March 11, 2022. For more details of the advertisement visit SEBI

website www.sebi.gov.in.



davp 15204/11/0412/2122

House on Plot No A-135 (Sahu

DEUTSCHE BANK AG Appendix IV [Rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the authorized officer of Deutsche Bank AG, India ("Bank") under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 28.10.2021 calling upon the borrower M/s Karol Bagh Saree House & M/s Kbsh Private Limited ("Borrowers"), Mr. Surender Dhir, Ms. Saroj Dhir & Ms. Sanya Dhir ("Co-Borrowers), to repay the outstanding amount as mentioned in the notice being Rs. 16,07,97,053.38 (Rupees Sixteen Crore Seven Lakhs Ninety Seven Thousand Fifty Three And Paise Thirty Eight Only), within 60 days from the date of receipt of the said

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said act read with rule 9 of the said act on this 17th Day of February of the year

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank for an amount of Rs. 16,07,97,053.38 (Rupees Sixteen Crore Seven Lakhs Ninety Seven Thousand Fifty Three And Paise Thirty Eight Only), and interest thereon.

Description of the Immovable Property

Property (1) All that the self-contained residential property being: -: Plot No 79 in Block C, situated at

Masjid Moth Resi. Scheme (Presently known as Panchsheel Enclave), New Delhi 110017, admeasuring 213.60 sq. meters (Approx), which is butted and bounded as follows: North By: Plot No. 80, South By: Plot No. 78, East By: Road, West By: Plot No.34

All that the self-contained commercial property being:-:- Plot No 2474 First Floor Gali No 09 Beadon Pura Karol Bagh New Delhi - 110005 , admeasuring 222 sq. yards(Approx) which is butted and bounded as follows North By: Gali No. 9, South By: Gali No. 10 East By: Plot No. 2775, West By: Other property (Properties)

Place: New Delhi

Date: 18/02/2022

पंजाब मैशनल बैंक

Vishal Charan Sd/- Authorized Officer. Deutsche Bank A.G.

punjab national bank

Circle SASTRA Centre: East Delhi, Pocket-E. Mayur Vihar Phase-II, Delhi-110091 e-mail: cs8075@pnb.co.in, Phone No.(Off.): 011-22779758, 22785289

POSSESSION NOTICE (For Immovable property) Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank, Circle SASTRA Centre, East Delhi, (Previously Asset Recovery Management

Branch) CSC First Floor, Pocket-E, Mayur Vihar Phase-II, Delhi-110091. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFEASI) Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 29.10.2021 calling upon Mr. Dilip Kumar Singh S/o Sh. Kailash Singh & Mrs. Kiran Singh W/o Sh. Dilip Kumar Singh (borrower) Add: H.No. B-7, Nandani Bhawan, Near Canara Bank, Sant Nagar, Burari, North Delhi-110084, Also at: Flat No. B-2, First Floor, Khasra No. 503, Plot No. 53, Extended Abadi Lal Dora, Burari, Delhi-110084 & Sh. Baidvanath Pvne S/o Sh. Abani Bhushan Pvne (Guarantor) Add: B-204, Nandani Bhawan, Opp Dena Bank, Sant Nagar Burari, North Delhi, Delhi-110084, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 12,43,661.21 (Rs. Twelve Lakhs Forty three Thousand Six hundred Sixty One & paise Twenty One only) with further interest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.

The borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under subsection (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 17th day of February of the year 2022. The borrower's /guarantor's /mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section

(8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab

National Bank Circle SASTRA Centre, East Delhi, (Previously Asset Recovery Management Branch) CSC First Floor, Pocket-E, Mayur Vihar Phase-II, Delhi-110091 for an amount of Rs. 12,43,661.21 (Rs. Twelve Lakhs Forty three Thousand Six hundred Sixty One & paise Twenty One only) and interest thereon. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of Property bearing No. Flat No. B-2, First floor (Without Terrace Roof rights), khasra No.503, Plot No.53-B, Measuring 60 Sq. yards Extended Abadi /Lal Dora, Burari, Delhi-

110084 in the name of Sh. Dilip Kumar Singh & Smt. Kiran Singh.

Vol. No.5323, on Page No.189 to 197, Registration No. 4264 on dated 12.05.2014.

Regd in the office of Sub Registrar-I, New Delhi/Delhi. Vide Book No. 1,

Authorized Officer

New Delhi

Date: 17.02.2022 financialexp.epap.in

the date of demand notice till payment/realization.

Date: 18.02.2022 Place: Delhi

(CIN: L74899DL1992PLC050333)

Registered Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052

Website: www.mindagroup.com E-mail: investor@mindagroup.com

Voting Results of NCLT Convened Meeting(s)

Based on the Scrutinizer's Report dated 17 February, 2022, issued by CA, Roshan Lal Jain, NCLT appointed Scrutinizer for the

Brief particulars of Special Resolution(s)	Total	No. of Vote of total votes	es & % age cast in favour	No. of Votes & % age of total votes cast against	
	valid Votes	No. of Votes	% age of Votes	No. of Votes	% age of Votes
Special Resolution regarding to approve the Scheme of Amalgamation of Minda I Connect Pvt. Ltd. (Transferor Company) with Minda Industries Ltd. (Transferee Company) and their respective Shareholders and Creditors (Scheme)					
Equity Shareholders	263890056	262413983	99.4406	1476073	0.5594
2. Unsecured Creditors	814110465	813997858	99.9862	112607	0.0138

The results of NCLT convened meeting has been displayed on the Notice Board of the Company, communicated to the Stock

Minda Industries Limited Tarun Kumar Srivastava

Whereas the Undersigned being "Authorized Officer" of Punjab National Bank, under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in Exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on the date mentioned against the account calling upon the respective borrower(s)/ Guarantor(s) to repay the amount as mentioned against account within 60 days from the date of notice, date of receipt of the said notice.

The borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

The borrower(s)/ Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section

Sr. Name of the Branch/ Description of the Property/ies Mortgaged Borrower: M/s All that part and parcel of Residential 24.06.2021 | 16.02.2022 | Rs. 9.86.707/-Raiindra Agriculture Property vide sale deed No. 2726 (Rupees Nine Lacs Eighty Six Thousand Works through dated 04.01.2016 in the name of Proprietor Rajinder Sukhpal Kaur W/o Rajinder Singh measuring 0K 9M i.e. 9/350 share of

Seven Hundred Seven Only) Plus further interest with effect from 30.04.2021 costs land measuring 13K 10M Khewat No. charges and other expenses thereon. (Less Stand, Talwandi Road, 1287 Khatoni No. 2802 bearing Recovery affected thereafter, if any) Raman Mandi, Tehsil Khasra No. 775 min (6-15) 776/1min(6-15) situated at House No. 78, Ward No. 5 Sabo, District Bathinda. Near Sher-e-Punjab Public School, Raman Mandi, Tehsil Talwandi Sabo, Distric

East: 31' Gurlal Singh, West: 31' Street

thereafter, if any)

Description of Property Secured in both Account i.e. Sr. No. 2 & 3 All that part and parcel of Residential property Khasra No. 536 min (0.2) min, Khatoni No. 739/1391 8

4. B/o: Maur Mandi All that part and parcel of property 03.05.2021 16.02.2022 Rs. 7,65,545.81 Borrower: 1. Manish commercial measuring 29'x58' i.e. (Rupees Seven Lacs Sixty Five Thousand Kumar S/o Vijay Kumar. 00K 6-1/4M Khewat No. 352/580 to Five Hundred Forty Five & paisa Eighty One 2. Rajneesh Kumar S/o 582 Khasra No. 8/15/2(3-12), Only) Plus further interest with effect from Vijay Kumar. 3. Asha 205/1(0-8), 205/2(2-0) vide 31.03.2021 costs, charges and other Rani W/o Vijay Kumar Jamabandi for the year 2011-12 expenses thereon. (Less Recovery affected R/o Tilla Road, Near situated at ward NO. 13, Opp. Lachu thereafter, if any)

in the name of Rajneesh Kumar S/o Vijay Kumar. Bounded as: North: 29' Kesar Chand, South: 29' Road, East: 58' Devki Devi, Kesar Chand, West: 58' Amritpal. 5, B/o: Maur Mandi All that part and parcel of Property 03.05.2021 16.02.2022 Rs. 8,94,356.61 Borrower: 1. Asha Residential House measuring (Rupees Eight Lacs Ninety Four Thousand Rani W/o Vijay Kumar. 22'6"X50' i.e. 00K 4-1/8M Khewat No. Three Hundred Fifty Six & paisa Sixty One 2. Manish Kumar S/o 679 Khatoni No. 1770 Khasra No. Only) Plus further interest with effect from

Colony, Maur Mandi- Tilla Road, Maur Mandi, vide sale deed No. 633 dated 03.07.2017 in the name of

(Govt. Contractor) No. 329 Khasra No. 524(0-3), 525(0- Seventy One Only) Plus further interest with 10), 526(0-7), 528(0-7), 529(0-4), effect from 01.07.2021 costs, charges and

> 141001. DATE: 17.02.2022

Date: 17-02-2022, Place: Delhi Authorized Officer, Punjab National Bank

कार्यालयः अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एम)-2 2142, जनता फ्लैट्स, जीटीबी एन्क्लेव, दिल्ली-110093



ई-प्रापण सॉल्यशन के

2.50 अप.

प्रैस एनआईटी सं. 70 (2021-22) ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा कार्य का विवरण ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति जारी की तिथि की अंतिम तिथि/समय एईई(एम)-63 के अंतर्गत सीमापुरी कंस्टीचुएन्सी की जलापूर्ति नेटवर्क के रखरखाव के लिये अनुबंध 28.02.2022 आधार पर एक वर्ष के लिये 10 नग अकुशल कर्मीयों की भर्ती (पुनर्आमंत्रित) 2022 DJB 216848 1 2.10 अप. प्रैस एनआईटी सं. 72 (2021-22)

> माध्यम से निविदा माध्यम से निविदा प्राप्ति जारी की तिथि की अंतिम तिथि/समय 28.02.2022 2022 DJB 216866 1 2.50 अप.

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://delhi.govtprocurement.com पर देखें।

अनुबंध आधार पर 10 नग एस.जी. बेलदार की भर्ती (पुनर्आमंत्रित)

(वी. के. चौहान) पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विजा. सं. जे.एस.वी. 1139(2021-22) कार्यपालक अभियंता(टी)-2 ''कोरोना रोकें, मास्क पहनें, शारीरिक दुरी का पालन करें, हाथों को स्वच्छ रखें''

मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईएन: L74899DL1992PLC050333) पंजीकृत कार्यालयः बी-64/1, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052 निगमित कार्यालयः ग्राम नवादा फतेहपुर, पी.ओ. सिकंदरपुर बड्डा, निकट आईएमटी मानेसर, गुड़गांव (हरियाणा)—122004 वेबसाइटः www.mindagroup.com ईमेलः investor@mindagroup.com दूरभाष: 91 11 4937 3931, 91 124 2290 427 / 28, फैक्स: 91 124 2290 676 / 95



2022 DJB 216866 2

एनसीएलटी संचालित बैठक(को) के मतदान परिणाम

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अंशधारकों और समस्त अन्य संबंधित निकायों / प्राधिकरणों हेतू कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 110 और अन्य लागूयोग्य प्रावधानों (यदि कोई हों) के अनुसार, दिनांक 16 फरवरी 2022 को आयोजित कंपनी के समता अंशधारकों और अप्रतिभृत ऋणदाताओं की एनसीएलटी संचालित बैठक(कें) जो थीं वे निम्न वर्णित समाधान पर उनका अनुमोदन मांगने के लिए संचालित की गई थीं:--

उपर्युक्त बैठकों के लिए जांचकर्ता नियुक्त सीए, रोशन लाल जैन, एनसीएलटी द्वारा निर्गत जाचंकर्ता के प्रतिवेदन दिनांकित 17 फरवरी 2022 के आधार पर, समता अंशधारकों और अप्रतिभृत ऋणदाताओं के मतदान के परिणामों की घोषणा 17 फरवरी 2022 को निम्नानसार की गई थी:–

विशष संकल्प(पा) के संक्षिप्त विवरण	कुल वध मत	1	पड़े कुल मतों का प्रतिशत		या तथा विपक्ष म पड़ कुल तों का प्रतिशत
		मतों की संख्या	मतों का प्रतिशत	मतों की संख्या	मतों का प्रतिशत
मिंडा । कनेक्ट प्रा. लि. (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) का मिंडा इंडस्ट्रीज लि. (हस्तांतरिती कंपनी) तथा उसके संबंधित अंशधारकों एवं ऋणदाताओं (योजना) के साथ संविलयन की योजना का अनुमोदन करने के संबंध में विशेष संकल्प					
1. समता अंशधारकगण	263890056	262413983	99.4406	1476073	0.5594
2. अप्रतिभूत ऋणदातागण	814110465	813997858	99.9862	112607	0.0138
	^	/ 0 (0			1 1/

अतः एनसीएलटी संचालित बैठक सूचना दिनांकित 5 जनवरी 2022 में निर्धारितानुसार उपरोक्त संकल्प जो है वह अपेक्षित बहुमत

एनसीएलटी संचालित बैठक के परिणाम जो हैं उन्हें जांचकर्ता के प्रतिवेदन के साथ कंपनी के सचना-पट पर प्रदर्शित किया गया है, स्टॉक एक्सचेंजों को संप्रेषित किया गया है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.unominda.com पर भी अपलोड किया

जीआईसी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

द्वारका शाखा : एफ-15 एवं 16, प्रथम तल, मनीष ग्लोबल मॉल, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर-22, द्वारका, नई दिल्ली-110075

फोन नंबर : 011-41530949, ई-मेल : dwarka@gichfindia.com कार्पोरेट कार्यालय / पंजी. कार्यालय : नैशनल इंश्योरैंस बिल्डिंग, छठा तल 14, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020

फोन नंबर : 022-22851765 / 66 / 67,

ई—मेल : corporate@gichfindia.com, वेबसाइट : www.gichfindia.com

को कुल बकाया

वास्ते जीआईसी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी

नोटिस U/S 13 (2) के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण वित्तीय संपत्ति एवं सुरक्षा हित अधिनियम 2002 का प्रवर्तन इसके द्वारा सचित किया जाता है कि किस्त/ब्याज/मूल ऋण का भगतान न करने के कारण, नीचे उल्लिखित खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकत किया गया है। हमने अपने अंतिम उपलब्ध पतों पर पंजीकत डाक के माध्यम से सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत नीचे दी गई सुविधाओं के कारण व्याज और अन्य शुल्कों के साथ पूरे

हम इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों (साठ दिनों) के भीतर पर्ण रूप से भगतान होने तक अनुबंधित दर पर नीचे बताई गई राशि का भगतान करने के लिए निम्नलिखित बोरोअर्स/गारंटर्स/मोटगेजस का आहवान करते हैं। डिफॉल्ट रूप में कानून के तहत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों का उपयोग करने के अलावा, बैंक किसी भी या सभी शक्तियों का उपयोग करने का इरादा रखता है, जो कि वित्तीय परिसंपत्तियों के सिक्यूरिटीकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13 (4) के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है और सुरक्षा अधिनियम

सम्पत्ति के सभी भाग व अंश, क्षेत्रफल 28.67 वर्ग मी. श्री द्वारिका नाथ पुत्र श्री | रू. 52.03.791.13

बकाया की मांग की थी या तो उन्हें वापस लौटा दिया गया था उनकी पावती नहीं मिली और जैसे उन्हें सार्वजनिक सचना के माध्यम से उसी के बारे में सचित किया गया

बंधक सम्पत्ति का विवरण

एवं स्वामी का नाम

नानक चन्द के नाम स्थित मोहल्ला बाजार खबचन्द, चंदौसी, जिला मरादाबाद ।

चौहददी : पुरब - गैलरी, पश्चिम - बालूचन्द, ओमी टंडन एवं राधाकृष्ण का

सम्पत्ति के सभी भाग व अंश, क्षेत्रफल 9.03 वर्ग मी. श्री द्वारिकानाथ पुत्र श्री नानक चन्द के नाम स्थित मोहल्ला बाजार खुबचन्द, चंदौसी, जिला मुरादाबाद (वर्तमान संभल), यू.पी. वही नं. 01, जिल्द नं. 755, पेज नं. 377 से 392, क्र. सं. 5989, दिनांक 30.10.2001 को एस.आर.ओ. चंदौसी द्वारा रजिस्टर्ड चौहद्दी : पुरब - कानुनी वारिस कृष्ण लाल का मकान, पश्चिम - गैलरी, उत्तर

संभल | मैसर्स रुदायन ग्राम विकास आश्रम सम्पत्ति के सभी भाग व अंश, क्षेत्रफल 1165 वर्ग मी. (.466 हे. का 1/4 भाग) रू. 80.41.419.75 | 29.12.2021 | 21.01.2022

श्रीमती भूरी देवी पत्नी श्री प्राणसुख के नाम स्थित ग्राम उसमा सराय, तह. व

जिला संभल, यू.पी. वही नं. 01, जिल्द नं. 3984, पेज नं. 349 से 372, क्र.सं.

1642, दिनांक 27.02.2008 को एस.आर.ओ. संभल द्वारा रजिस्टर्ड चौहद्दी :

08-2018 को एस.आर.ओ. चंदौसी द्वारा रजिस्टर्ड चौहद्दी : पूरब – लल्लू सिंह

का प्लाट, पश्चिम – सुरेश चन्द्र चौधरी का प्लाट, उत्तर – रोड 12 फिट चौड़ा,

SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (13) के संदर्भ में, आप इस नोटिस के प्रकाशन के बाद बिक्री के माध्यम से स्थानांतरण पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम

में अन्य) सुरक्षित संपत्ति में से कोई भी नहीं करेंगे बैंक की पर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इस वैधानिक निषेधाज्ञा संगम का

कोई उल्लंघन, जैसा कि उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है, अपराध है। यदि किसी कारण से सुरक्षित संपत्तियां व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में बेची जाती हैं या पट्टे

पर दी जाती है, तो बिक्री की गई आय या आय को बैंक के पास/उसके पास जमा प्रेषित किया जाएगा। आपको इस तरह की प्राप्ति/आय के उचित खाते की प्रस्तुत करना होगा।

क्पया इस नोटिस के तहत इस मार्ग का अनुपालन करें और सभी अप्रियता से बचें। अनुपालन न करने की स्थिति में, सभो लागतों और परिणामों के लिए आपको उत्तरदायी

डीआरटी कोर्ट के समक्ष कानूनी कार्रवाई करने वाले बैंक को यह नोटिस बिना किसी पूर्वाग्रह के जारी किया जाता है, क्योंकि यह मामला डीआरटी/कोट

मकान, उत्तर - दिलीप कमार की कोठी, दक्षिण : विक्रेता की सम्पत्ति

- दिलीप कुमार की कोठी, दक्षिण : अलका अग्रवाल की दुकान

2002 को लागु करता है। सुरक्षित ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में, बैंक द्वारा लागु की गई सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण भी नीचे उल्लिखित है।

जिला संभल यू.पी.-202412 (वर्तमान संभल), य.पी. वही नं. 01, जिल्द नं. 755, पेज नं. 355 से 376, क्र. प्रोपराइटर : श्री द्वारिका नाथ सं. 5988, दिनांक 30.10.2001 को एस.आर.ओ. चंदौसी द्वारा रजिस्टर्ड

प्रोपराइटर : श्री बृलेश यादव | पूरव - संतोष कुमार का खेत, पश्चिम - नरोत्तम का खेत, उत्तर - ओमप्रकाश

पता : गांधी रोड, शक्ति नगर, । श्री शिवओम चौहान, लतारानी पत्नी श्री अंकित कुमार एवं अक्षय चौहान पुत्र श्री

चंदौसी, जिला संभल यू.पी.-202412 शिवओम चौहान के नाम स्थित गांधी रोड, शक्ति नगर चंदौसी, जिला संभल, यू. प्रोपराइटर : श्री अंकित चौहान पी. वही नं. 01, जिल्द नं. 8729, पेज नं. 19 से 88, क्र.सं. 11018, दिनांक 02.

औरछी | मैसर्स शिव माला इन्टरप्राइजेज | सम्पत्ति के सभी भाग व अंश, क्षेत्रफल 228.00 वर्ग मी. श्री आशीष चौहान पुत्र

संदर्भ :- सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत नियमावली के

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने जीआईसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, नीचे दिए नाम वाले आप / कर्जदारों को सरफार्स

अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) तहत जारी मांग सूचना के अनुसरण में, उक्त सूचनाओं में वर्णित बकाया राशि सूचनाओं की

प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की थी। आप सभी उपरोक्त बकाया राशि, अनुबद्ध समय के भीतर चुक

ाने में असफल रहे हैं, अतः जीआईसीएचएफएल सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के प्रावधान और तदधीन

नियमों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रत्याभूत आस्तियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है

इस सूचना के अतिरिक्त, एतदद्वारा उक्त कर्जदारों से जीआईसीएचएफएल को संबंधित सम्पत्तियों का खाली और शांतिपूर्ण ढंग से कब्जा

इस सूचना की तिथि से 7 दिन के भीतर हस्तांतरित करने की मांग की जाती है, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट, 2002 और

तदधीन विरचित नियमों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसरण में उपरोक्त सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा बलपर्वक लेने तथा सम्पत्तियों

एतदद्वारा कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को उपरि संदर्भित सम्पत्तियों / प्रत्याभूत आस्तियों अथवा उनके किसी भाग के संबंध में संव्यवहार

नहीं करने की चेतावनी दी जाती है तथा उपरि संदर्भित सम्पत्तियों / प्रत्याभृत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार

सम्पत्तियों / प्रत्याभृत आस्तियों के संबंध में यहां उपरिवर्णित जीआईसीएचएफएल की बकाया राशि तथा उस पर पूर्ण भूगतान की तिथि

फ्लैट नंबर सी–2, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर

गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201009

punjab national bank

डी–1, खसरा नंबर 157–बी, साई उपवन

यूसुफपुर चक शाहबेरी, तहसील दादरी, जिला

नियम 8 के उप—नियम (1) के तहत कब्जा सूचना

बोर्ड के आदेश द्वारा मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता./— तरुण कुमार श्रीवास्तव कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

कब्जा की तिथि

17-02-2022

सर्किल सस्त्र सेन्टर : बदायँ

की धनराशि

+ प्रभावी ब्याज

+ प्रभावी ब्याज

🧓 Oriental United 🚱 (यू.पी.) - 243601 e-mail : cs8211@pnb.co.in

खेडा नवादा चौराहा, दास कॉलेज के सामने

17-09-2021

स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा दिनांकः 17 फरवरी, 2022

फाइल नंबर

यूपी066060

0000064

तक आगे ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार /

सह–कर्जदार

का नाम

का निपटान करने के लिए कार्यवाही करने हेतू बाध्य होगा।

दिनांकित : 18–02–2022, स्थान : द्वारका, नई दिल्ली

खाते का नाम व पता

मैसर्स अनिल श्रृ इम्पोरियम

पता : बडा बाजार चंदौसी.

गारन्टर : श्री आशीष कपर पुत्र श्री श्याम सुन्दर कपूर

पुत्र श्री नानक चन्द

पता : कोटपर्वी, निकट

संभल यू.पी.-244302

रामलीला मैदान, संभल जिला

बन्द सिंह पुत्र श्री वदन सिंह गारन्टर : श्रीमती भूरी देवी पत्नी श्री प्राणसुख यादव

पत्र श्री शिवओम चौहान

शिवओम चौहान

गारन्टर : श्रीमती लतारानी

चौहान पुत्र श्री शिवओम चौहान एवं श्री आशीष चौहान पुत्र श्री

ठहराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुत्र श्री प्राणसुख यादव एवं श्री का खेत, दक्षिण : चक रोड

पत्नी श्री अंकित चौहान, अक्षय दक्षिण : सुरेश चन्द्र चौधरी का प्लाट

इसके अलावा, उधारकर्ता/गारंटर/मोर्टगेजर्स को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

अन्य सुरक्षित परिसंपत्तियों को लागु करने के लिए बैंक अपने अधिकार सुरक्षित रखता है।

के समक्ष लंबित मुकदमे मुकदमेबाजी में बैंक के अधिकारों के पक्षपात के बिना हो सकता है।

का नाम

नियम 30 के अनपालन में 1 एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन

कार्यालय फ्लैट नं. 303. एस्पायर 2 टावर. सपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट, प्लॉट नं. ४, सेक्टर-९३ए, एक्स्प्रैस वे, नोएडा, उ.प्र.-201304 में है, के मामले में

प्रदेश राज्य'' से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' में उसके पंजीकत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शनिवार, 12 फरवरी, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन रं यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-2 जमा कराएं या पंजीकत डाक से भेजें:

डोसेरी मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

DIN: 01728348

की तिथि

29.12.2021 21.01.2022

板, 13,19,898,52 02,10,2021 31,01,2022

विकेताओं का पंजीकरण

आर्मी डेंटल सेंटर (आर एंड आर), दिल्ली केंट - 10

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए ADC (R&R) के मेडिकल/डेंटल स्टोर्स/ सर्विसेज (AMC/CAMC/मरम्मत) की सभी खरीद के लिए सेना डेंटल सेंटर (R&R), दिल्ली केंट-10 में अपना पंजीकरण कराने के लिए विकेताओं को आमंत्रित किया जाता है। आवेदन प्रपत्र सभी कार्य दिवसों पर 1000 hrs से 1300 hrs के बीच OIC मेडिकल स्टोर्स (ADC)(R&R) के साथ उपलब्ध होंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है।

एडीसी (आर एंड आर) दिल्ली केंट

फॉर्म नं. यूआरसी-2 अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और (पंजीकरण हेत् अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में)

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी बधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, कानपुर उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी को इस संबंध में पन्द्रह दिन लेकिन इसके बाद तीस दिन की समाप्ति से पूर्व एक आवेदन करने का प्रस्ताव किया गया है कि **मैसर्स** एयरमौर्यन सर्विसेस एलएलपी को कंपनी प्रधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I वं अंतर्गत शेयरों द्वारा कम्पनी लिमिटेंड के रूप में पंजीकत किया जाए।

 एयरमॉर्यन सर्विशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम गठित की जाने वाली कंपनी का मूल उददेश्य सभी प्रकार के वायुवानों, एवर बसीं, एवरो प्लेन सीप्लेन, पलाइंग बीट, होयर क्रापट्स, हेलिकॉप्टरॉ और अन्य शिल्पों को स्थापित करना, व्यवस्थित करना, प्रबंधित करना, चलाना, चार्टर, आचरण, अनुबंध, विकास, संचालन, स्वामित्व और संचालन करना । सभी भागों पर यात्रियों, भाल, मेल और अन्य

वरलुओं की दलाई करना है । प्रस्तावित कंपनी के मसीदा ज्ञापन और संख्या के अंतर्नियम की प्रति का निरीक्षण बी-29, सेक्टर-60, नोएडा, उत्तर प्रदेश गीतम बुद्ध नगर यूपी 201301. में रिधत कार्यालय में किया जा सकता है। एतदहारा सुचना दी जाती है कि उक्त आवेदन

पर आपति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक प्रति सहित, इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर विक्टार, सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी) मारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) प्लॉट नं. ६,७,८, सैक्टर-५, आईएमटी मानेसर जिला गृहगांव (हरियाणा), पिन कोड-122050 को भेज सकता है।

आज दिनांक 26 नवंबर 2021 आवेदक का नामः 1. गौरव तंगरी 2. मोना शर्मा

िकंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र पीठ, दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी

(निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में डोसेरी मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि ''उत्तः

पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या फ्लैट नं. 303, एस्पायर 2 टावर, सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट,

प्लॉट नं. ४, सेक्टर-९३ए, एक्स्प्रैस वे, नोएडा, उ.प्र. 201304 बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर सं

हर्शित जैन (निदेशक

तिथि: 18 फरवरी, 2022

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE EQUITY PUBLIC SHAREHOLDERS OF

SUNSHIELD CHEMICALS LIMITED

Corporate Identification Number: L99999MH1986PLC041612: Registered Office: 1501-A. Universal Majestic, P.L. Lokhande Maro Behind R.B.K International Academy, Chembur, Mumbai - 400043, Maharashtra, India: Contact Details; 022-25550126; Website; www.sunshieldchemicals.com;

Email Address: sunshieldchemicals@gmail.com, investorservices@sunshieldchemicals.com;

Open Offer for acquisition of up to 19,11,796 (Nineteen Lakhs Eleven Thousand Seven Hundred and Ninety-Six) fully paid-up equity shares of face value of INR 10.00/- (Indian Rupees Ten Only) each ("Equity Shares") representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of Sunshield Chemicals Limited ("SCL" or "Target Company") from the Equity Public Shareholders of the Target Company, by Indus Petrochem Limited ("Acquirer"), at a price of INR 352.53/- (Indian Rupees Three Hundred and Fifty-Two point Five Three Only) per Equity Share ("Offer Price") payable in cash, in accordance with the provisions of Regulations 3 (1) and 4 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto, ("SEBI (SAST) Regulations") ("Offer").

This Post-Offer Public Announcement is being issued by CapitalSquare Advisors Private Limited, the Manager to the Offer, on behalf of the Acquirer, in connection with the Offer made by the Acquirer to the Equity Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with the provisions of Regulation 18 (12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations ("PoPA"). This PoPA should be read in continuation of, and in conjunction with the: (a) Public Announcement dated Monday, October 11, 2021 ("PA"), (b) Detailed Public Statement dated Saturday, October 16, 2021, published on Monday, October 18, 2021, in the newspapers, namely being, Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi Daily) (All Editions), and Mumbai Lakshadeep (Marathi daily) (Mumbai Edition) ("DPS"); (c) Letter of Offer dated Monday, January 17, 2022, along with form of Acceptance cum Acknowledgement and Form SH-4 Securities Transfer Form ("LoF"); (d) Dispatch advertisement of LoF dated Thursday, January 27, 2022, published on Friday, January 28, 2022 in the same newspapers in which the DPS was published; and (f) Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement dated Monday, January 24, 2022, published on Tuesday, January 25, 2022, in the same newspapers in which the DPS was published. This Post Offer Announcement is being published in the same newspapers in which the DPS was published.

Sunshield Chemicals Limited

Indus Petrochem Limited

	riamo di ma riaquilata una trisa	There are no persons acting in concert with the Acquirer for this Offer.				
3.	Name of Manager to the Offer	CapitalSquare Advisors Private Limited				
4.	Name of Registrar to the Offer	Bigshare Services Private Limited				
5.	Tendering Period details	10-70				
5.1	Date of Opening of the Offer	Friday, January 28, 2022				
5.2	Date of Closing of the Offer	Thursday, February 10, 2022				
6.	Date of Payment of Consideration	Wednesday, February 16, 2022				
7.	Details of the Acquisition					
	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actuals			
7.1	Offer Price	INR 352.5	3/-			
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	19,11,796 *	200			
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	19,11,796 *	200			
7.4	Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	INR 67,39,65,443.88/-*	INR 70,506.00/-			
7.5	Shareholding of the Acquirers before the SPA/ PA	1.1				
a)	Number of Equity Shares	300	1450			
b)	% of fully diluted Equity Share capital	Ni	Nil			
7.6	Equity Shares acquired by way of SPA	10.70				
a)	Number of Equity Shares	45,85,196	45,85,196			
b)	% of fully diluted Equity Share capital	62.36% 62.36%				
7.7	Equity Shares acquired by way of Offer		2000			
a)	Number of Equity Shares	19,11,796 *	200			
b)	% of fully diluted Equity Share capital	26,00% *	Negligible			
7.8	Equity Shares acquired after DPS					
a)	Number of Equity Shares acquired	0323				
b)	Price of the Equity Shares acquired	Ni	Nil			
c)	% of Equity Shares acquired					
7.9	Post-Offer shareholding of the Acquirer	y	2.8541.854555			
a)	Number of Equity Shares	64,96,992*	45,85,396			
b)	% of fully diluted Equity Share capital	88.36%	62.36%			

The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Announcement and for the obligations specified under SEBI (SAST) Regulations. The Acquirer has consummated the SPA transaction in accordance with the provisions of Regulations 22 (2) read with 17 of the SEBI (SAST)

Pre-Offer

27,67,864

37.64%

Post-Offer*

8,56,068

11.64%

Pre-Offer

27,67,864

37.64%

For and on behalf of the Acquirer

Post-Offer

27.67.664

37.64%

Regulations on Tuesday, November 30, 2021, and has already reclassified itself as the Promoter of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A (10) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including subsequent amendments thereto ("SEBI (LODR) Regulations"), which has been reflected in the shareholding pattern filed with BSE Limited, in accordance with the provisions of Regulation 31 of the SEBI (LODR) Regulations for the guarter ending December 31, 2021. A copy of this PoPA will be accessible on the website of Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in. BSE at www.bseindia.com and

the registered office of the Target Company. 11. The capitalized terms used in this PoPA shall have the meaning assigned to them in the LoF, unless otherwise specified.

CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER

Particulars

Number of Equity Shares

"Assuming full acceptance in this Offer.

% of fully diluted Equity Share capital

1. Name of the Target Company

2. Name of the Acquirers and PACs

CAPITALSQUARE Teaming together to create value

208, 2st Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11, CTS 70, Andheri (East). Mumbai - 400093, Maharashtra, India Contact Number: +91-22-66849999/ +91-98742-83532 Email Address: tanmoy.banerjee@capitalsquare.in/ pankita.patel@capitalsquare.in/

Website: www.capitalsquare.in Contact Person: Mr. Tanmov Baneriee/Ms. Pankita Patel SEBI Registration Number: INM000012219

Validity: Permanent Date: Thursday, February 17, 2022

Indus Petrochem Limited Place: Mumbai

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001 OA No.: OA/450/2020

Union Bank of IndiaApplicant

Versus M/s Radha Plastic & Ors. __Defendant

1. M/s Radha Plastic, Plot No. 1203, M.I.E Part-B. Main Rohtak Road, Bahadurgarh-124507

Haryana...Defendant1 2. Mr. Anand Agarwal, S/o Shev Shankar Agarwal. H.No. 129, 2nd Floor, Avtar Enclave, Paschim Vihar, Delhi-110063...Defendant2 Sh. Shiv Shanker Agarwal S/o Sh. Prabhu Daval Aganwal, H.No. 129, 2nd Floor, Avtar Enclave. Paschim Vihar, Delhi-110063... Defendant3 Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of Rs. 1,13,25,270,28/- (Rupees

One Crore Thirteen Lakhs Twenty Five Thousand Two Hundred Seventy and Paise Twenty Eight Only) against you & whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisemen directing you to make appearance before Ld. Registrar on 21-03-2022 at 10.30 A.M. (for further details kindly visit DRT website www.etnbunal.gov.in Phone Number: 011-23748473). Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the

case will be heard and decided in your absence. Due to ongoing Pandemic situation, all the matters will be taken up through Video Conferencing and for will be taken up through vises control to the that purpose:
(i) All the Advocates/Litigants shall download the Cisco Webexapplication / software;
(ii) Meeting ID and Password for the next date of hearing qua cases to be taken by Registrar/Recovery Officer-I/ and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. drt.gov.in under the Public Notice Head (iii) In any exigency qua that, the Advocates / Litigants can contact the concerned official at Ph.No. 23748473. Given under my hand & seal of this Tribunal on this the 14-02-2022.

BY ORDER OF THIS TRIBUNAL Seal For Registrar

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए सार्वजनिक कम्पनी का प्राइवेट कम्पनी में

रूपांतरण के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम,

2013 की धारा 14 कंपनी तथा (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में मै. अशोका इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस लिमिटेड

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि यह

जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-139, दुसरा तल ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली-110065 में है, के मामले में

कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिये 7 फरवरी, 2022 की आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिये इच्छुक है। कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली 110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत

डाक से भेजें: अशोका इंडस्टियल रिसोर्सेस लिमिटेड के लिये अशोक कुमार सुरान (निदेशक DIN No: 0208587 **पंजी.कार्या**.: डी-139, दुसरा तल ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली-110065

तिथि: 07.02.2022 स्थानः नई दिल्ली

दिनांक 15.03.2022 को सम्पत्तियों



की ई-नीलामी ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 14.03.2022

क. आरक्षित मृत्य (रु.)

खाता नं

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

वसुली अनुमाग, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, छठा तल, अंसल टॉवर, 38, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 फोन : 011-26281530, 26414751, ईमेल - rocrecdel@canarabank.com ई-नीलामी बिक्री सचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) & 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत चल / अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचना एतदद्वारा जनसाधारण को एवं विशेष रूप से कर्जदारों एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है, कि नीचे वर्णित **चल/अचल** सम्पत्तियां जो प्रतिमृत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है,

का कब्जा, केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, सम्बद्ध पक्षकारों से बैंक के बकायों की वसली के लिए उसकी बिक्री ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर 15.03.2022 को अर्पाह 12.30 बजे से अर्पाह 01.30 बजे तक (बिक्री के निष्कर्ष तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) बेचा जाएगा ।

चल / अचल संपत्ति का पूर्ण विवरण, आरक्षित मूल्य, ईएमडी, देयताएं तथा ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो, निम्नलिखित है:

क्र. सं.	शाखा का नाम	कर्जदार / गारंटर्स / बंधककर्ता का नाम एवं पता	चल/अचल संपत्ति का विवरण और कब्जे की स्थिति	कुल बकाया राशि	ख. धरोहर राशि (रु.) ग. बोली वृद्धि (रु.) घ. बिक्री सूचना की तिथि	और IFSC कोड
1	(ई–सिंडीकेट) सदर बाजार शाखा नई दिल्ली – 110006	2. श्री श्रीकांत यादव (प्रोपराईटर) पुत्र दुखी यादव, तृतीय तल, दुकान प्रा. नं. टी—।, नं. वि तम्यासी: ए—41, गली नं. 11, बेस्ट विनोद नगर, पटपड़गंज रोड, दिल्ली—110092 3. श्री राम पवित्रा पासवान (गारंटर) पुत्र सीता राम पासवान, निवासी: 3948, तृतीय तल, गली बरना, सदर		दिनांक 16.12.2019 तक प्लस दिनांक 17.12.2019 से भविष्य का व्याज, खर्चे एवं अन्य प्रमार इत्यादि सहित	क. 8,00,000/- ख. 80,000/- ग. 50,000/- घ. 16-02-2022	खाता नं. 8304296000002 IFSC कोडः CNRB0008304
2	केनरा बैंक नयाबाजार शाखा नई दिल्ली — 110006	 मैसर्स सचिव टी कंपनी (उघारकर्ता), कॉर्यालयः 101/11, विवेकानंद कॉम्पलैक्स, रानी बाग, दिल्ली—110034 मैसर्स बी.एल फूब्स (उघारकर्ता) कार्यालय — 101/11 विवेकानंद कॉम्प्लेक्स, रानी बाग, दिल्ली — 110034 श्री राजेंद्र प्रसाद (उघारकर्ता) और (गारंटर—मैसर्स बी. एल. फूब्स) श्री जे.बी. कक्कड़ (गारंटर — मैसर्स सचिन टी कंपनी और श्री राजेंद्र प्रसाद), निवासीः टी—650/जी1ए बलजीत नगर दिल्ली—110008 	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, सम्पत्ति डी—179, न्यू नं. सी—29, प्लॉट नं. 9, ब्लॉक—जी, खसरा नं. 384, खाता नं. 44, खाता नं. 142, गाँव सीलमपुर, माजरा मादीपुर कॉलोनी जिस अब ऋषि नगर कहते है, शकुर बस्ती, दिल्ली — 110034 में स्थित, सांकेतिक कब्जा	दिनांक 31.03.2021 तक प्लस दिनांक 01.04.2021 से भविष्य का ब्याज, खर्चे एवं अन्य प्रमार इत्यादि सहित	क. 47,52,000/- ख. 4,75,000/- ग. 50,000/- घ. 16-02-2022	खाता नं. 8304296000002 IFSC कोखः CNRB0008304
3	केनरा बैंक, शक्ति नगर शाखा नई दिल्ली – 110007	 मैसर्स वोल्टेक इंडिया प्रा. लि. उधारकती), श्री निमेश बंसल (निदेशक और गारंटर) श्री राजीव बंसल (निदेशक और गारंटर) सभी: 33 / 17, शक्ति नगर, दिल्ली—110007 	सास्यिक बंधक अचल सम्पत्ति नं. 33 / 17, शक्ति नगर, दिल्ली—110007 में स्थित, क्षेत्रफल 56 वर्ग गज, सांकेतिक कब्जा	रु. 53,78,869.49 दिनांक 31.03.2021 तक प्लस दिनांक 01.04.2021 से भविष्य का ब्याज, खर्चे एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित	क. 141,00,000/- ख. 14,10,000/- ग. 50,000/- घ. 16-02-2022	खाता नं. 8304296000002 IFSC कोडः CNRB0008304
4	ई–सिंडिकेट राज निवास मार्ग शाखा, नई दिल्ली – 110001	राज निवास नार्ग शाखा, नई दिल्ली अपार्टमेंट फॉट नं 97 आईपी एक्सटेंशन, Model - 2018-12.11.2018 Color - White		रु. 3,07,534.91 और दिनांक 01.09.2021 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रमार इत्यादि सहित	क. 2,21,000/- ख. 22,100/- ग. 5,000/- घ. 16-02-2022	खाता नं. 8304296000002 IFSC कोडः CNRB0008304
5	घाँदनी चौक, नई दिल्ली — 110006	 मैसर्स वी जे ट्रेडिंग कं, पता— संपत्ति नं. एमपीएल नं. 2808 (नया), (पुराना—1394), प्रथम और द्वितीय तल की दुकान, वार्ड—VI, चट्टा सूफीजी, गली पीपल महादेव, हौज काजी, दिल्ली—110006 श्री मान सिंह, निवासी: संपत्ति नं. एमपीएल नं. 2808 (नया), (पुराना—1394), प्रथम तल दुकान, वार्ड—VI, चट्टा सूफीजी, गली पीपल महादेव, हौज काजी, 	एमपीएल नं. 2808 (नया), (ओल्ड–1394) द्वितीय तल की दुकान, वार्ड–VI, चट्टा सूफीजी, गली पीपल महादेव, हौज काजी, दिल्ली–110006 में स्थित, क्षेत्रफल 64 वर्ग फीट (बिना	दिनांक 31.05.2021 तक और दिनांक 01. 06.2021 से लागू भविष्य का ब्याज,	क. 16,95,000/- ख. 1,70,000/- ग. 50,000/- घ. 16-02-2022	खाता नं. 8304296000002 IFSC कोड: CNRB0008304

बकाया देयताएँ : स्थानीय सरकार (सम्पत्ति कर, जल कर, बिजली के बिल आदि) रु: उपर्युक्त किसी भी सम्पत्ति के लिए बैंक को ज्ञात नहीं धरोहर राशि 14.03.2022 को सायं 05.00 बजे तक या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। सम्पत्तियों का निरीक्षण 10.03.2022 और 11.03.2022 को पूर्वाह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच

निम्नलिखित से सम्पर्क करे:

भौतिक कब्जा

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com में दिए गए लिंक "ई-नीलामी" को देखें। या कार्यदिवस में कार्यकाल के दौरान

क्रमांक 1 हेतु: श्री. हरीश एम, मोबाइल नं. 9560090271, मुख्य प्रबंधक, ई—सिंडिकेट (अब केनरा बैंक) पहाड़ी धीरज, सदर बाजार, दिल्ली, लैंड लाइन नंबर 011—23673886 क्रमांक 2 हेत: श्री अजय कमार पांडे, मोबाइल नं. 9971119034, वरिष्ठ प्रबंधक, नयाबाजार शाखा, केनरा बैंक, लैंड लाइन नंबर 011–23960556

क्रमांक 3 हेतु: श्री मुकेश बाबू, मोबाइल नं. 9560081170 मुख्य प्रबंधक, शक्ति नगर शाखा, केनरा बैंक, लैंड लाइन नंबर 011—23845361

क्रमांक 4 हेतु: श्री संजय शाह (शाखा प्रबंधक), केनरा बैंक, राज निवास मार्ग शाखा, नई दिल्ली—110001 (फोन नं. 011-23967388, 9903593661)

क्रमांक 5 हेतुः श्री मुनोवर खान, मोबाइल नं. 9560014313, मुख्य प्रबंधक, चांदनी चौक, दिल्ली, लैंड लाइन नंबर 011—23946499 उपर्युक्त शाखा प्रभारियों से किसी भी कार्यदिवस से कार्य घंटो के दौरान सम्पर्क किया जा सकता है।

उपर्युक्त ई–नीलामी हेत् सेवा प्रदाताः मैसर्स कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, वेबसाइट – www.ccsl.co.in and https://indianbankseauction.com संपर्क व्यक्ति श्री प्रताप कांजीलाल/श्री डी.डी. पाखरे -9832952602/8898418010 ਜੇਂਫ लाइन 080-23469665 ईमेल: ccsleauction@gmail.com or ccsl@ccsl.co.in

नोट: इस विज्ञापन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अंग्रेजी के प्रकाशन को मान्यता दी जायेगी।

दिनांक : 18.02,2022 प्राधिकृत अधिकारी स्थान-बदाय

www.readwhere.com

दिनांक 16.02.2022. स्थान : नई दिल्ली



सहित